



प्रेस नोट

दिनांक- 30.08.2022

थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 5 किलो ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया !

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को **05 किलो ग्राम अवैध गांजा** सहित दिनांक 30.08.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि दिनांक 30.08.2022 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 01 व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, जिसकी सूचना को तस्दीक करते हुये थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित स्थान पर पहुँचकर 01 नफर अभियुक्त को 05 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना अकबरपुर में मु0अ0सं0- 584/22 धारा- 18/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम बनाम 01 नफर अभियुक्त- अजमेर सिंह पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम उमरन थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अजमेर सिंह पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम उमरन थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

05 किलोग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 584/22 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम थाना अकबरपुर कानपुर देहात
- 2- मु0अ0सं0 1185/2017 धारा 352/504/506 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
- 3- मु0अ0सं0 57/09 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अकबरपुर कानपुर देहात
- 4- मु0अ0सं0 25/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रजनीश कुमार वर्मा चौकी रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात
2. का0 321 अविनाश शर्मा चौकी रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात
3. का0 651 संदीप कुमार चौकी रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**